

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय  
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल- बक्सर

पत्रांक- 403 /बक्सर

दिनांक- 16/03/2023

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता  
ग्रामीण कार्य विभाग  
कार्य प्रमंडल- बक्सर

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-सचिव  
बिहार ग्रामीण पथ विकास अभिकरण (BRRDA)  
बुद्ध मार्ग, पटना।

विषय- शीर्ष 3054 (बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति- 2018) योजना अंतर्गत राशि की अधियाचना के  
सम्बन्ध में।


महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि योजना शीर्ष 3054 मरम्मत (बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति-  
2018) अंतर्गत कराये गए कार्यों के भुगतान हेतु राशि की आवश्यकता है जिसे अधियाचना प्रपत्र के साथ सलंग्न कर  
भेजा जा रहा है।


अतः श्रीमान से अनुरोध है कि सलंग्न विवरणी के अनुसार आवंटन उपलब्ध कराने की कृपा की जाए ताकि  
संवेदकों द्वारा कराये गए कार्य का भुगतान किया जा सके।

अनु०- यथोक्त

विश्वासभाजन

  
16.03.23

कार्यपालक अभियंता  
ग्रामीण कार्य विभाग  
कार्य प्रमंडल, बक्सर

  
16.03.23

**FORM GFR 19-A**  
(SEE Government of India's Decision (I) below Rule-150)  
Form of Utilisation Certificate upto the month of Dec 2018

**MR (3054) New Maintenance Policy 2018**

**PIU - RWD (W), Div.- Buxar**

Sl. No.	Name of Scheme	Sanction No. & Date with Amount (in Rs. Lacs)	Amount Received (in Rs. Lacs)	Particulars
1	Construction of Rural Roads under MR (3054) Maintenance	Lt. No.- 32, dt.-03.03.2023	6985.97121	Certified that out of Rs. 6985.97121 lacs received during the years in favour of Ex. Engineer, RWD (W), Div.- Buxar Bihar, a sum of Rs 6966.02771 lacs been utilized for the purpose of MR (3054) New Maintenance Policy 2018 Schemes as given in the margin for which it was sanctioned and that the balance of Rs 19.90435 lacs remaining unutilized at the end of the period under
<b>Total -</b>				

2 Certified that I have satisfied myself that the conditions on which the grant-in-aid was sanctioned have been duly fulfilled/ are being fulfilled and that I have exercised the following checks to see that the money was actually utilized for the purpose for which it was sanctioned.

**Kind of Checks exercised :-**


- i. Works have been supervised by Executive Engineer/ Supertending Engineer.
- ii. Periodical inspection has been conducted by Executive Engineer/ Supertending Engineer.
- iii. Construction materials have been tested
- iv. Measurements have been recorded in the MBs and test check conducted by the Assistant.
- v. All other codal formalities have been observed.

**3 Physical Progress achieved :-**

- i. Construction of Road works
- ii. Construction of CD works

  
16.03.23  
Executive Engineer

R.W.D. (w) Div. Buxar

  
16.03.23

Format for Scheme Head-MR (3054) under Bihar Rural Road Maintenance Policy- 2018 (Initial Rectification and Surface Renewal)

Name of Works Division- RWD, Works Division- Buxar

Sl No	Package No.	Name of Road	Project ID as per MIS	Administrative Approval (AA) Letter No & Date	Administrative Approval (AA)		Agreement Amount		Agreement No. & Date	Date Of Completion as per Agreement	Value of IRI (In mm/km)	Thickness of Bitumen Layer (in mm)	Value of Bitumen Content in percentage	Previous Total Amount (In Lakh)	up-to-date expenditure as per MIS (In Lakh)	Requisition against work done (In Lakh)	Remarks
					Length (In KM)	Amount (In Lakh)	Initial Rectification With Surface Renewal (In Lakh)	5 Years Routine Maintenance (In Lakh)									
1	RM/BU/BU X/22/0012	L030 - Jaso Meadon Kulaharia to Nidhwan (L30)	10401902077	Letter No 1486 & 8/09/2022	2.559	134.784	100.24379	31.6458	13/MBD/2022-23 & 22.02.2023	21.11.2023	1778	25 mm	5.00%			100.20379	

- Signed Hard Copy and Soft Copy (in excel) of recorded IRI is enclosed
- Up-to-date Physical Progress has been uploaded in MIS

Executive Engineer  
RWD (W), Div.- Buxar


*[Signature]*  
16/09/23


कार्यपालक अभियंता का कार्यालय  
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बक्सर

का0आ0स 404 ..... बक्सर/ दिनांक 16.03.2023


कार्यालय आदेश

प्रमाणित किया जाता है कि बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीती-2018 योजनान्तर्गत L030 - Jaso Medaon Kulaharia to Nidhwan (L30) पथ का कार्य गुणवत्ता एवं विशिष्टियों के अनुरूप पूर्ण कराया गया है। पथ के मापीपुस्त की जाँच मेरे द्वारा 10 प्रतिशत एवं कनीय अभियंता के द्वारा शत प्रतिशत किया गया है।

  
कनीय अभियंता  
ग्रामीण कार्य विभाग  
कार्य अवर प्रशाखा बक्सर

  
कार्यपालक अभियंता  
ग्रामीण कार्य विभाग  
कार्य प्रमंडल, बक्सर

File : E:\BISHNU SANKAR OJHA\2 nroad\15031550.Xls. Section No. :96. Eqn :test  
 Name of Customer : Ashutosh Kumar, Name of Work/ Road :L030 -Jaso-Nadoan Kulhariea To Nidhwan, Lab Job



*[Handwritten signature]*  
 15/03/17

*[Handwritten signature]*  
 16.03.25

Road Name:- L030-Jaso Nadaon Kulhariea to Nidhawan Contractor's Name:-Ashutosh Kumar

Date	Time	Section No.	Length in km	Bumps in mm	Rate	Speed	OR	IRI	TEGORY	Latitude	ongitude	Event
15/3/23	15:10:28	96	0.1	1020	10.1	1800	1745 G	25.54757	84.71127 Normal	X = 1282	Y = 1295	Y = 0 * X ^ 2 + 0.816 * X + 249
15/3/23	15:11:39	96	0.1	280	10.1	2200	1815 G	25.54671	84.7079 Normal			
15/3/23	15:12:14	96	0.1	180	10.1	1800	1717 G	25.54577	84.70605 Normal			
15/3/23	15:13:0	96	0.1	380	10.1	3800	3349 G	25.54482	84.70403 Normal	(R) RURAL ROAD		
15/3/23	15:13:24	96	0.1	350	10.1	3500	3104 G	25.5443	84.70285 Normal	Good	Average	Poor
15/3/23	15:14:0	96	0.1	270	10.1	2700	2452 G	25.5443	84.70285 Normal	<4000	4001-5000	>5001
15/3/23	15:14:35	96	0.1	250	10.1	2500	2288 G	25.5443	84.70285 Normal			
15/3/23	15:15:10	96	0.1	210	10.1	2100	1962 G	25.5443	84.70285 Normal			
15/3/23	15:15:45	96	0.1	160	10.1	1600	1554 G	25.5443	84.70285 Normal			
15/3/23	15:16:21	96	0.1	200	10.1	2000	1880 G	25.5443	84.70285 Normal			
15/3/23	15:18:7	96	0.1	100	10.1	1000	1064 G	25.5443	84.70285 Normal			
15/3/23	15:20:28	96	0.1	100	10.1	1000	1064 G	25.53797	84.69562 Normal			
15/3/23	15:23:24	96	0.1	200	10.1	2000	1880 G	25.53739	84.69578 Normal			
15/3/23	15:23:59	96	0.1	220	10.1	2200	2044 G	25.53739	84.69578 Normal			
15/3/23	15:27:57	96	0.1	70	10.1	700	820 G	25.53698	84.06959 Normal			
15/3/23	15:28:32	96	0.1	150	10.1	1500	1472 G	25.53679	84.06962 Normal			
15/3/23	15:29:8	96	0.1	120	10.1	1200	1228 G	25.53685	84.06967 Normal			
15/3/23	15:29:43	96	0.1	240	10.1	2400	2207 G	25.53543	84.06987 Normal			
15/3/23	15:31:29	96	0.1	420	10.1	4200	3676 G	25.53326	84.07003 Normal			
15/3/23	15:32:39	96	0.1	160	10.1	1600	1554 G	25.53258	84.07004 Normal			
15/3/23	15:33:15	96	0.1	100	10.1	1000	1064 G	25.53207	84.07006 Normal			
15/3/23	15:34:25	96	0.1	100	10.1	1000	1064 G	25.53187	84.06651 Normal			
15/3/23	15:35:1	96	0.1	130	10.1	1300	1309 G	25.53202	84.06619 Normal			
15/3/23	15:35:36	96	0.1	50	10.1	1282	1295 G	25.53211	84.06555 Normal			
15/3/23	15:35:1	96	0.1	130	10.1	1300	1309 G	25.53215	84.06494 Normal			
15/3/23	15:35:36	96	0.05	50	10.1	1282	1295 G	25.53218	84.06496 Normal			

*Handwritten signature and date: 16.03.23*

*Handwritten signature and date: 16.03.23*

IRI VALUE=1778  
MACHINE ID=415